

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 1976/वी० 15, 1897

No. 14]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 1976/PAUSA 15, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF COMMERCE

ORDER No. 1/76

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 5th January 1976

**S.O. 20 (B).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports Control Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely:

1. This Order may be called the Imports (Control) first Amendment Order, 1976.
2. In Schedule I to the Imports (Control) Order, 1955—

## (A) In Part I

For S. No. 17 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

Sl. No.	Name of the article	Item of the First Schedule to Indian Tariff Act, 1934
1	2	3
17.	Iron and steel pipes and tubes and fittings therefor, including valves and boiler tubes cut to shape and size, including circular cross and other sections, and unscrewed mild steel tubes or cycle frames in lengths and cut to size, but excluding non-ferrous pipe fittings, flexible metallic tubes and brass/copper coated tubes.	63(6), 63(7), 63(17), 63(18), 72(3)

## (B) In Part IV

For S.No. 303 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

Sl.No.	Name of the article	Item of the First Schedule to Indian Tariff Act, 1934
1	2	3
303	Photographic negatives and printing paper, including dia positive plates (not exposed), but excluding X-Ray films.	77(5)

[No. I.E.C.A./3/1/76]

D. D. JOSHI,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

आदेश संख्या 1/76

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1976

का० प्रा० 20 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है:

1. इस आदेश को आयात (निर्यात) प्रथम संशोधन आदेश, 1976 की संज्ञा दी जाए।
2. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के लिए अनुसूची-1 में—

## (क) भाग-1 में

क्रम संख्या 17 और सम्बद्ध प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित रूप संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

क्रम सं०	वस्तु का नाम	भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 के लिए प्रथम अनुसूची की मद
17.	लोहा तथा इस्पात पाइप एवं ट्यूब और इसकी फिटिंग जिनमें आकार और साइज में कटे वाल्व्स और बायलर ट्यूब शामिल हैं और जिनमें सर्कुलर क्रॉस एव अन्य सेक्शन और बिना मरोड़ी हुई तरम इस्पात ट्यूब अथवा लम्बाई एवं साइज में कटे हुए, साइकल ठाचे भी शामिल हैं किन्तु अलौह पाइप फिटिंग, लकड़दार, धात्विक ट्यूब और पीतल/ताम्र, कोटिड ट्यूब को छोड़कर।	63, (6), 63 (7), 63 (17), 63 (18), 72 (3)।

(ख) भाग 4 में

क्रम संख्या 303 और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

क्रम सं०	वस्तु का नाम	भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 के लिए प्रथम अनुसूची की मद
303	डाय-पोजिटिव प्लेट्स (जो एक्सपोज्ड नहीं) सहित किन्तु एक्स-रे फिल्म को छोड़कर फोटोग्राफिक नेगेटिव एवं मुद्रण कागज ।	77 (5)

[सं० ग्राई० ई० सी० ए०/3/1/76]

डॉ० डी० जोशी,

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

